



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 09, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9521 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Sadulshahar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Sadulshahar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सादुलशहर श्रीगंगानगर
प्रपत्र-क

वार्ड संख्या	वार्ड संख्यावार्ड का विवरण	
1	भादरराम मेघवाल के घर से गोगामेडी तक गोगा मेडी से भागीरथ डुडी के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर चलते हुए कृष्ण झोरड के नोहरे तक वहां से पश्चिम की चलते हुये बगडावत सुथार के मकान को शामिल करते हुये राजाराम खीचड़ के घर को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए जमन्दा सिंह के घर तक वहां से शमशान भूमि को शामिल करते हुए भादर राम मेघवाल के मकान तक का समस्त एरीया शामिल	941
2	हरनेक सिंह के नोहरे से पूर्व की तरफ चलते हुये हनुमान झोरड के मकान तक हनुमान झोरड के मकान को बाई ओर छोड़ते हुये दक्षिण की तरफ चलते हुये प्रकाश पटवारी के मकान दाई ओर शामिल करते हुये चन्द्रभान शर्मा के मकान तक वहां से पश्चिम की चलते हुये महावीर की चक्की को बाहर छोड़ते हुये दिदार सिंह के नोहरे तक वहां से उत्तर की ओर हरनेक सिंह के नोहरे तक का समस्त ऐरिया।	986
3	बहालसिंह के नोहरे से पूर्व की चलते हुये महावीर की चक्की तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये महावीर झौझा के नोहरे तक वहां से पूर्व की चलते हुये दारा सिंह की चक्की तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये	896

	जगदीश मेघवाल की दुकानों तक वहां से पश्चिम की चलते हुये गणेशा राम जांगीड़ के मकान को शामिल करते हुए जग्गा जरनेल की दुकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये बहाल सिंह के नोहरे तक	
4	पालिका सीमा की पश्चिम नुक्कड़ पर गन्दे नाले से दक्षिण की ओर लाईन क्रॉस करते हुए करतार सन्तलाल बन्तासिंह के मकानो को बांयी ओर शामिल करते हुए पालिका सीमा की पश्चिमी-दक्षिणी नुक्कड़ पर मनफूल की ढाणी तक वहां से पूर्व की ओर पालिका सीमा चलते हुए रतिराम लालगढिया के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये अलीमोहम्मद के मकान तक अलीमोहम्मद के मकान को बाहर छोड़ते हुये वहां से पश्चिम की ओर राजेन्द्र मजबी के मकान तक राजेन्द्र मजबी के मकान से उत्तर की ओर दौलत राम चालिया के मकान तक वहां से पालिका सीमा पश्चिमी नुक्कड़ तक का समस्त ऐरिया।	104 5
5	आत्माराम के मकान से उत्तर की तरफ रेलवे लाईन को क्रॉस करते हुये पूर्व की तरफ चलते हुये भगत सिंह चौक के पास आरयुबी तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये समस्त रिको ऐरिया को शामिल करते हुये वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए बाबा ध्याननाथ डेरा शमशान भूमि गौशाला कब्रिस्तान तक वहां दक्षिण की ओर चलते हुये पालिका सीमा तक वहां से मुड़कर उत्तर की चलते हुए अलीमोहम्मद के मकान तक अलीमोहम्मद के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर राजेन्द्र मजबी के मकान तक राजेन्द्र मजबी के मकान को बाहर छोड़ते हुये उत्तर की ओर आत्माराम के मकान तक का समस्त ऐरिया।	989
6	हनुमान झोरड़ के मकान से पूर्व की ओर चलते हुये भादर मास्टर के नोहरे तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये लच्छु मेघवाल के मकान को दाई ओर शामिल करते हुये गुरुद्वारा की दक्षिणी-पश्चिमी नुक्कड़ तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये मनीष बाल्मिकी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये जसविन्द्र पार्षद के मकान तक वहां से पश्चिम की चलते हुये महावीर झीझां के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये अंतराम नाई के मकान तक वहां से पूर्व की चलते हुये विनोद खीचड़ के मकान तक वहां से उत्तर की चलते हुये महेन्द्र शर्मा के मकान को दाई ओर शामिल करते हुये हनुमान झोरड़ के मकान तक का समस्त ऐरिया।	697
7	गुरुद्वारा सिंह सभा दक्षिणी-पश्चिमी नुक्कड़ से पूर्व की चलते हुये फुलाराम नायक के मकान तक फुलाराम नायक के मकान को बाहर छोड़ते हुये उत्तर की ओर चलते हुये परशुराम चौक तक वहां से पश्चिम की चलते हुये बलराम न्यौल के नोहरे के उत्तरी-पश्चिमी नुक्कड़ तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये डॉ ओमअग्रवाल के मकान तक डॉ.ओमअग्रवाल के मकान को बाहर छोड़ते हुये पश्चिम दिशा में चलते हुये सोहन छपोला के मकान तक वहां से दक्षिण की चलते हुये गुरुद्वारा सिंह सभा के दक्षिणी-पश्चिमी	884

	का समस्त ऐरिया।	
8	हनुमान सहारण के मकान से पूर्व की चलते हुये मोहन साहरण के खाली प्लाट तक वहां से दक्षिण की चलते हुये ठाकुर जी के मन्दिर को बाईं ओर शामिल करते हुये चुन्नी पटवारी के मकान को शामिल करते हुये मोमन साहरण के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये मोहन सहारण को बाईं ओर छोड़ते हुये नगरपालिका रोड संतलाल के मकान तक वहां से पश्चिमी की ओर चलते हुये बलराम न्यौल के नोहरे की उत्तरी-पश्चिमी नुक्कड़ तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये डॉ. ओमअग्रवाल के मकान तक डॉ.ओमअग्रवाल को शामिल करते हुये पश्चिम में भुरेखं के मकान तक वहां से उत्तर की चलते हुये आदराम पटवारी मकान तक वहां से पश्चिम की चलते हुये कृष्ण सोनी के नोहरे तक वहां से उत्तर की चलते हुये हनुमान साहरण के मकान तक का समस्त ऐरिया।	896
9	मोहन सहारण के नोहरे से (मोहन सहारण के नोहरे को बाहर छोड़ते हुये)पूर्व की चलते हुये पृथ्वीराज शर्मा के मकान तक वहां से उत्तर की चलते हुये पंचायत समिति की उत्तरी-पश्चिमी नुकड़ तक वहां से पूर्व की चलते हुये मंगत अनेजा की चक्की तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये राजीव चौक तक वहां से पश्चिम की चलते हुये आकाशदीप हॉस्पिटल तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये पंचायत समिति की पूर्वी-दक्षिणी की कोर्नर तक वहां से पश्चिम की चलते हुये भादर हुड्डा के मकान तक वहां से दक्षिण की चलते हुये जयमल सहारण के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये .साहबराम झोरड़ के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये मोहन साहरण के नोहरे तक	878
10	साजनराम सहारण के मकान से पूर्व की ओर साहबराम सहारण के नोहरे तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये अमीलाल कुम्हार के मकान को दाईं ओर शामिल करते हुये रामदेव मन्दिर को शामिल करते हुये अशोक चावला के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये निहालचन्द चावला के मकान तक वहां से उत्तर की चलते हुये मोहन सहारण को दाईं ओर शामिल करते हुये साजन राम साहरण के तक का समस्त ऐरिया।	767
11	पतराम सोनी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए राजीव चौक तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए धानमण्डी के दक्षिणी गेट तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए फुलाराम नायक के मकान तक फुलाराम नायक के मकान को शामिल करते हुये उत्तर की चलते हुये परशुराम चौक तक वहां से पश्चिमी चलते हुये प्रेमसुख न्यौल के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये पतराम सोनी के मकान तक का समस्त ऐरिया	816
12	राजीव चौक से पूर्व की ओर चलते हुए इन्द्र मोहन भुतना के घर तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए संगरिया रोड दुर्गा मन्दिर तक वहां से पश्चिम की चलते हुए पुरानी चंगी नं.02 तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए	801

	फुटेला चौक अरुट महाराज चौक होते हुए राजवी चौक तक का समस्त ऐरिया	
13	सीताराम पवन कुमार के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुये दुर्गा मन्दिर तक वहां से पूर्व की चलते हुये दुर्गा मन्दिर को बाहर छोड़ते हुये राधेश्याम सोनी की दुकानों के कटले तक वहां से दक्षिण की चलते हुये वीर सिंह के मकान तक वहां से पश्चिम की चलते हुये मोगा की दुकान तक वहां से दक्षिण की चलते हुये कृष्णधमीजा के घर तक वहां से पश्चिमी की चलते हुये सीताराम पवन कुमार मकान तक का समस्त ऐरिया।	988
14	मंगतचलाना के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए साहब राम मरासी के मकान तक वहा से दक्षिण की ओर चलते हुये अजेय वधवा के मकान तक वहा से पूर्व की चलते हुये अमीचन्द्र वर्मा के मकान को दाईं ओर शामिल करते हुये हरप्रीत मान के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये भगत सिंह चौक तक वहा से पश्चिम की ओर चलते हुये दलीपसिंह मिस्त्री हाकमाबाद वालो की दुकान को शामिल करते हुए राधेश्याम सोनी के कटले तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये मेहताब गुरिया के मकान को शामिल करते हुए मंगतचलाना के घर तक का समस्त ऐरिया।	128 8
15	भुतनाटेण्ट हाउस से पूर्व की ओर चलते हुए गुरुनानक फैक्ट्री तक फैक्ट्री को बाहर छोड़ते हुए दक्षिण की ओर अशोक वधवा के मकान को शामिल करते हुये सतपाल गुम्बर के नोहरे तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये अजय वधवा के मकाने तक अजेय वधवा के मकान को बाहर छोड़ते हुये साहब राम मरासी के मकान तक साहब राम मरासी के मकान को बाहर छोड़ते हुये पश्चिम की चलते हुये मंगत चलाना के मकान तक मंगत चलाना के मकान को बाहर छोड़ते हुये पश्चिम की ओर चलते हुये मुंशी राम भुतना की चक्की तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये भुतना टेण्ट हाउस तक का समस्त ऐरिया।	127 9
16	ओमप्रकाश शर्मा के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए वैयर हाउस की पूर्वी नुकड़ तक वहा से दक्षिण की चलते हुये ओमप्रकाश गुजर के नोहरे तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये राजेश अग्रवाल की दुकान तक वहां से उत्तर की चलते हुये ओम प्रकाश शर्मा के मकान तक का समस्त ऐरिया	865
17	राजकीय बालिका स्कूल की दक्षिणी-पश्चिमी नुकड़ तक वहां से उत्तर की ओर हरंबंस कुक्कड़ के मकान को शामिल करते हुये प्रदीप मास्टर के मकान तक वहां से पूर्व की चलते हुये कृपाराम छीम्पा के मकान तक वहां से दक्षिण की चलते हुये पार्क की पूर्वी दक्षिणी कॉर्नर तक वहां से पश्चिम की चलते हुये। हंसराज के मकान तक हंसराज के मकान को बाहर छोड़ते हुये दक्षिणी की चलते हुये सुमेश सोलंकी की दुकान तक सुमेश सोलंकी की दुकान बाहर छोड़ते हुये विनोद गोदारा के नोहरे तक विनोद के नोहरे से दक्षिण की चलते हुये बाबा रामदेव पुस्तक भण्डार तक वहां से पश्चिम की	124 3

	चलते हुये राजकीय बालिका स्कूल की दक्षिणी-पश्चिमी नुकड़ का समस्त ऐरिया	
18	हसंराज के मकान से पूर्व की चलते हुये मानाराम पूर्व पार्षद को शामिल करते हुये पालिका की सीमा तक वहां से दक्षिण की आरे चलते हुये गुरुनानक फैक्ट्री को शामिल करते हुए मुख्य रोड तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए बलवन्त विश्नोई के नोहरे तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए विनोद गोदारा के नोहरे तक विनोद गोदारा के नोहरे बाहर छोड़ते हुये पश्चिम की ओर चलते हुये सुमेश सोलंकी की दुकान तक वहां से उत्तर की चलते हुये हसंराज के मकान तक का समस्त ऐरिया।	135 2
19	न्यौलो की कोठी से पूर्व की ओर आर्दश कॉलोनी प्रताप नगर को शामिल करते हुए मुकेश सिंगीकाट के मकान तक वहां से दक्षिण की चलते हुये मदन वर्मा तक वहां से पश्चिम की चलते हुये मोहन मेहरा के मकान तक वहां से दक्षिण की चलते हुये अमरचन्द गिल्होत्रा के मकान तक। वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए स्कूल नं. 02 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए अशोक मिस्त्री के मकान तक अशोक के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए कुरडाराम धाणक के घर तक कुरडाराम को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए विनोद मांवर को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए गोशाला को शामिल करते हुए न्यौलो की कोठी तक का समस्त ऐरिया	165 0
20	धन्ना सिंह के नोहरे से पूर्व की ओर चलते हुये सरस्वती धाणक के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये कुरडा राम के मकान तक कुरडा राम के मकान को बाईं ओर रखते हुये पूर्व की ओर चलते हुये रमजान खान के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये सुरेन्द्र वर्मा के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलते हुये कृषि उपज मण्डी समिति की पूर्वी-दक्षिणी कोर्नर तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुये राजीव चौक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये धन्ना सिंह के नोहरे तक का समस्त ऐरिया	121 1
21	जगदीश के मकान से पूर्व की चलते हुये मुख्य सड़क तक वहां से दक्षिण की चलते हुये सरकारी हॉस्पिटल की पूर्वी-दक्षिणी नुकड़ तक वहां से पश्चिम की चलते हुये मुन्सफ कोर्ट की दक्षिणी-पश्चिमी नुकड़ तक वहां से उत्तर की चलते हुये पतराम सानी के नोहरे तक वहां से उत्तर की चलते हुये जगदीश के मकान तक का समस्त ऐरिया।	783
22	वाटरवर्क्स नर्सरी व चूंगी नाका को शामिल करते हुए मुख्य सड़क तक मुख्य रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए सोहन लाल गोयल की दुकान तक दुकान को शामिल करते हुए पश्चिम की चलते हुए सोनु वधवा की दुकान तक वधवा की दुकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए भोलाराम भाट और मनीराम धाणक के घर को शामिल करते हुए वाटर वर्क्स तक का समस्त ऐरिया	990

23	हंसराज ओड राजपुत के घर से पूर्व की ओर चलते चलते नहर के साथ साथ स्कूल तक स्कूल से दक्षिण की ओर चलते हुए वाटर वर्क्स की दक्षिण पश्चिम कोने तक वहां से पूर्व की ओर चलते हुए पीयूष गुप्ता की दुकान तक दुकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलते चलते काशी राम भाट तक वहां से पश्चिम की चलते हुये इश्वरी के मकान तक इश्वरी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए हंसराज के घर तक समस्त ऐरिया	808
24	काशी राम भाट के मकान से दक्षिण की चलते हुये काशी राम भाट के मकान को बाहर छोड़ते हुये रमन ब्यूटी पार्लर तक वहां से पश्चिम की चलते हुये नरसी विशनोई के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुये पीरबाबा की दरगाह को दाई शामिल करते हुये वहां से पूर्व की ओर चलते हुये काशी राम भाट के मकान तक का समस्त ऐरिया।	932
25	नहरी कॉलोनी की पश्चिमी उत्तरी नुकड़ से पूर्व की ओर चलते हुये महेन्द्र सहारण के नोहरे तक वहां से पूर्व की चलते हुये प्यारेलाल स्वामी के मकान तक प्यारे लाल को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए एसडीएम ऑफिस फायर बिग्रेड उपकोष कार्यालय सीनियर सैण्डरी स्कूल स्टेडीयम को शामिल करते हुए रामदेव चौक छात्रावास को शामिल करते हुए नहरी कॉलोनी की दक्षिणी-पूर्वी नुककड़ तक वहां से पश्चिमी की ओर चलते हुये। नहरी कॉलोनी की पश्चिमी-दक्षिणी नुकड़ तक वहां से उत्तर की चलते हुये नहरी कॉलोनी की पश्चिमी उत्तरी नुकड़ तक का समस्त ऐरिया।	995

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका सादुलशहर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।